

08.05.2023

To,
The Manager - Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400 051
Tel No. 022-2659 8237 /38

Dear Sir,

Symbol: DHAMPURSUG

The General Manager – DSC BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai: 400001 Tel No.022-22722039/37/3121

Security Code: 500119

Sub: Submission of copy of Newspaper Advertisement

Please find enclosed the copies of the newspaper advertisement published today pertaining to the Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended on 31st March, 2023, pursuant to the Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The advertisement copies will also be made available on the Company's website at the following web link: www.dhampursugar.com.

You are requested to take the information on record.

Thanking you,

For Dhampur Sugar Mills Limited

Aparna Goel Company Secretary M. No. 22787

Daikin India enters billion-dollar club

Company had a turnover of₹8,860 crore in FY23

PRESS TRUST OF INDIA

conditioner maker Daikin Airconditioning India expected to become a \$2-billion company in the next three years, having crossed the milestone of \$1 billion in FY23, said Chairman and Managing Director Kanwaljeet Jawa.


Daikin India has a turnover of ₹8,860 crore for the financial year that ended on March 31, 2023. The firm is looking at the India business as its "future treasure" and expects it to double to \$2 billion (around ₹16,350 crore) in the next three years, Jawa told PTI.

Daikin India is now the second company operating in the cooling space to cross the \$1 billion milestone after the Tata group firm Voltas, which had reported a total income of ₹9,667 crore for FY23.

When asked about this Jawa said: "Yes, we are a billion-dollar company now. Now we have top shares in every segment which we operate VRV, chillers, and room air conditioners." The company, a wholly-owned subsidiary of Japan's Daikin Industries, a leading global manufacturer of commercial and residential air con-

EXCLUSIVE CLUB

Source: Capitaline



ditioning systems, has so far invested ₹2,300

Compiled by BS Research Bureau

"We are looking at India in the long term. We have expansion plans here to make India a

manufacturing hub for Daikin for Middle East and Africa markets," said Jawa. Over Daikin India's contribution to the par-

ent global company, Jawa said it is still very

small and in the single digits. "I would say India is a future treasure for Daikin. We may be small but the kind of expansion plan which we have ..." he said, adding, "we are now aligning our growth strategy with our global strategy." Presently, Daikin India gets 70 per cent of its revenue from residential (room AC), 20 per cent from VRV (variable refrigerant volume AC systems) used for large offices, and the rest 10 per cent from commercial businesses as projects, etc.

Aim is to make Paytm cash-flow positive: CEO

ARYAMAN GUPTA New Delhi, 7 May

After One 97 Communications, the parent company of fintech major Paytm, managed to narrow its losses in the fourth quarter of FY23, its chief executive officer Vijay Shekhar Sharma said the firm's next objective is to make the firm cash-flow positive.

"I am very happy to announce our second quarter of Ebitda (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortisation) (before ESOP cost) profitability. Our next milestone is to make Paytm cash flow positive in the near future." Sharma wrote in a letter to shareholders.

He added, "This has been possible by disciplined resource allocation and focusing on what has become our core revenue and growth driver — the payments and financial services distribution business.'

The fintech giant, in its O4 results for FY23, managed to

narrow its losses to ₹168 crore. This compares to losses of ₹392 crore a quarter ago and ₹761 crore in the year-ago period.

Revenues of the firm also

surged almost 52 per cent year-on-year (YoY) to ₹2,335 crore in Q4, up from ₹1,541 crore. This was largely driven by growth in the company's payments and loan distribution business, coupled with a rise in gross merchandise value (GMV). Also, higher revenue from merchant subscriptions contributed to the growth. Paytm continued to witness sustained growth in GMV during Q4 — its GMV stood at ₹3.62 trillion, an increase of 40 per cent YoY. Its loan distribution business continued to scale as well, in partnership with the firm's

lending partners. Average monthly transacting users (MTU) for O4 grew 27 per cent YoY to 90 million. This comes as adoption of mobile payments by consumers and merchants continues. Subscription services for payment devices, such as Soundbox and POS machine, also witnessed strong adoption. Around 6.8 million merchants paid for subscriptions as of March 2023. This is more than double of 2.9 million merchants in March 2022.

Sharma emphasised that Paytm's in-house technology for risk management and controls has become a significant competitive advantage for the payments major. The company will "continue to invest in this area as a key focus area.'

In Q4, across the company's three product offerings -Paytm Postpaid, Personal Loans, and Merchant Loans loans amounting to ₹12,554 crore were distributed through the Paytm platform. As of March 2023, 9.5 million borrowers have taken loans

through the platform. "With low penetration rates currently for each of our loan distribution products, we see a long runway for growth in this business," the company said.



Extract of Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2023

| SI. No. | Particulars | | Quarter Ended | Year Ended | | |
|------------|---|--|--------------------------|--|------------------------|------------------------|
| | | 31/Mar/23 (Audited) (refer Note 3) | 31/Dec/22 (Unaudited) | 31/Mar/22 (Audited) (refer note 3) | 31/Mar/23 (Audited) | 31/Mar/22 (Audited) |
| 1. | Total income from operations (net) | 762.55 | 642.22 | 539.48 | 2,889.50 | 2,173.6 |
| 2. | Net profit / (loss) for the period before tax and exceptional items | 81.53 | 67.11 | 47.19 | 222.79 | 201.5 |
| 3. | Net profit / (loss) for the period before tax and after exceptional items | 81.53 | 67.11 | 47.19 | 222.79 | 201.5 |
| 4. | Net profit / (loss) for the period after tax | 60.69 | 46.44 | 29.71 | 157.99 | 144.0 |
| 5. | Total comprehensive income for the period | 60.86 | 46.76 | 29.31 | 157.73 | 146.0 |
| 6. | Paid-up equity share capital | 66.38 | 66.38 | 66.38 | 66.38 | 66.3 |
| 7. | Other equity (as at year end) | - | - | - | 976.18 | 818.6 |
| 8. | Earnings per equity share (EPS) (of ₹ 10/- each) (not annualised) : | | | | | |
| | a) Basic (₹ per share) | 9.10 | 6.99 | 4.48 | 23.72 | 21.7 |
| | b) Diluted (₹ per share) | 9.10 | 6.99 | 4.48 | 23.72 | 21. |

- These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (referred to as "Ind AS") 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act. 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The above Consolidated financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Parent Company in their respective meetings held on May 07, 2023. The joint statutory auditors have carried out an
- The Parent Company successfully completed expansion of its distillery capacity by 130 KL per day on "C" heavy molasses at its unit located at Dhampur, Distt. Bijnor, Uttar Pradesh. The new capacity has been commissioned on February 05, 2023. With this expansion, the distillery capacity of the Company stands at 350 KLPD
- The figures for the quarter ended March 31, 2023 and March 31, 2022 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year to date figures up to the third quarter of the respective financial year, which were only reviewed by joint statutory auditors.
- The Board of Directors of the Parent Company at its meeting held on April 03, 2023 declared interim dividend of 60% i.e. ₹ 6 per equity shares of ₹ 10 each on 6.63.87,590 Equity Shares of the Company for the Financial Year 2022-23 (Aggregate of Interim Dividend of 50% i.e. ₹ 5.00 per Equity Share of ₹ 10 each and Special Dividend of 10% i.e. ₹ 1.00 Per Equity Share of ₹ 10 each on successful commissioning of New Distillery Project of the Company) and is proposed to be confirmed as final by the shareholders in the ensuing Annual General Meeting of the Company.
- Sugar being a seasonal industry, the performance of the quarter may not be representative of the annual performance of the Company.
- The above is an extract of the detailed format of Audited Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on stock exchange websites i.e https://www.nseindia.com, https://www.bseindia.com and on Company's website https://www.dhampursugar.com

The key Standalone information is as under

(₹ in Crores)

| | | Quarter Ended | Year Ended | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Particulars | 31/Mar/23 (Audited) (refer Note 3) | 31/Dec/22 (Unaudited) | 31/Mar/22 (Audited) (refer note 3) | 31/Mar/23 (Audited) | 31/Mar/22 (Audited) |
| Total revenue | 756.88 | 643.74 | 574.66 | 2,840.75 | 2,208.71 |
| Profit before tax | 78.73 | 66.69 | 50.44 | 215.10 | 204.50 |
| Profit after tax | 57.89 | 46.02 | 32.96 | 150.30 | 146.95 |
| Other comprehensive income (OCI) | 0.17 | 0.32 | (0.40) | (0.26) | 2.03 |
| Total comprehensive income | 58.06 | 46.34 | 32.56 | 150.04 | 148.98 |

Figures for the previous corresponding periods have been regrouped, wherever considered necessary.

For and on behalf of the board

Ashok Kumar Goel Chairman

Place: New Delhi Dated: May 07, 2023



DHAMPUR SUGAR MILLS LIMITED

Regd. Office: Distt. Bijnor, Dhampur (U.P.) - 246761 CIN - L15249UP1933PLC000511, Phone No - 011-41259400 Email: investordesk@dhampursugar.com

Website: www.dhampursugar.com

* Edelweiss | WEALTH MANAGEMENT nuvama



Unlike some species, we never change colour.

Our wealth managers are a breed apart. We don't randomly change colour to suit the environment and put you at risk. In fact, we are transparent. True to our word. It's all about doing the right thing.

#LetsDoltRight

LEGACY OF OVER 25 YEARS | OVER A MILLION CUSTOMERS | ₹2.25+ LAKH CRORE CLIENT ASSETS

WEALTH MANAGEMENT | ASSET MANAGEMENT | CAPITAL MARKETS

nuvama.com

Disclaimer: Investments in securities market are subject to market risks; read all the related documents carefully before investing. Please visit our website www.nuvama.com for details of Nuvama group companies, their respective product/service offerings, details of regulatory registrations/licenses and complete disclosures.

Registered office address: Nuvama, 801-804, Inspire BKC, G Block, Bandra-Kurla Complex, Mumbai – 400 051.

फूड डिलिवरी फर्मों का आईपीएल बोनांजा

जोमैटो, स्विगी, डोमिनोज आदि फूड डिलिवरी ऐप के डाउनलोड में फरवरी के मुकाबले अप्रैल में हुई दमदार वृद्धि

सुरजीत दासगुप्ता

हे जोमैटो हो या स्विगी या फिर डोमिनोज पिज्जा या ब्लिंकइट (जोमैटो द्वारा नियंत्रित) फड डिलिवरी कंपनियां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दर्शकों द्वारा भोजन और स्नैक्स की मांग में आई तेजी को भूना रही हैं। ऐसे ग्राहकों की संख्या लगातार नई ऊंचाई को छु रही है।

स्टार डिज्नी और जियो टीवी पर दर्शकों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। जियो टीवी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूवी की मुफ्त स्ट्रीमिंग करती है। स्टार स्पोर्ट्स ने बताया है कि पहले 29 मैच के दौरान उसके दर्शकों की संख्या 40 करोड़ के पार हो गई। यह आईपीएल 2022 में कुल दर्शकों की संख्या के मुकाबले 3.7 करोड़ अधिक है। स्टार स्पोटर्स की प्रमख प्रतिस्पर्धी जियो सिनेमा ने भी हाल में घोषणा की थी कि फिलहाल उसके करीब 2.4 करोड़ दर्शक आईपीएल मैच देख रहे हैं जो आईपीएल 2019 में 1.86 करोड़ दर्शकों के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है।

आंकड़ों पर नजर रखने वाली फर्म सेंसर टावर के आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च से शुरू हुए मौजूदा आईपीएल सीजन के दौरान फुड डिलिवरी कंपनियों के ऐप का न केवल डाउनलोड बढ़ा है बल्कि उसके सक्रिय मासिक एवं दैनिक उपयोगकर्ताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। बोफा ग्लोबल रिसर्च का मानना है कि इससे जोमैटो और यहां तक कि क्विक कॉमर्स ऐप ब्लिंकइट को इससे काफी फायदा होगा और उम्मीद है कि 2024 की पहली तिमाही के दौरान उनके राजस्व में तेजी आएगी।

उदाहरण के लिए, अप्रैल में सेंसर टावर पर जोमैटो का ऐप डाउनलोड 40 लाख के पार पहुंच गया जो फरवरी में करीब 30 लाख था। इस दौरान स्विगी ऐप का डाउनलोड 20 लाख से बढ़कर 30 लाख से अधिक हो गया। डोमिनोज पिज्जा केवल अपने उत्पादों की ही डिलिवरी करती है लेकिन उसके ऐप का डाउनलोड भी बढ़कर 30 लाख के पार हो गया। जबकि फरवरी में उसके ऐप डाउनलोड की संख्या महज 10 लाख से अधिक रही थी। फुड डिलिवरी कंपनियां विभिन्न विपणन कार्यक्रमों के जरिये भी ऑर्डर हासिल करने के लिए आईपीएल दर्शकों को आकर्षित कर रही हैं। प्रतिक्रिया मिल रही है। उदाहरण के लिए,



आईपीएल कर रहा मालामाल

 अप्रैल महीने में दैनिक सिक्रय और मासिक सिकय उपयोगकर्ताओं की संख्या मार्च के मुकाबले तेजी से बढ़ी

 फुड डिलिवरी कंपिनयों ने आईपीएल मैच के दर्शकों की संख्या में हुई वृद्धि का उठाया फायदा

 फुड डिलिवरी कंपनियां दर्शकों को आईपीएल से संबंधित गठजोड़ और करार के जरिये अपने प्लेटफॉर्म के जरिये ऑर्डर देने के लिए आकर्षित कर रही हैं

इसके लिए जोमैटो ने स्टार स्पोटर्स के साथ करार किया है। उसने टूर्नामेंट को लोकप्रिय बनाने के लिए क्रिकेट के मैदान के साथ अपने घरेलू आइकॉन की अदला-बदली भी की है।

जोमैटो ने 'जोमैटो प्रिडिक्शन लीग' को भी लॉन्च किया है। यह एक इन-ऐप गेमिफिकेशन है जिसमें आप रोजाना विजेता की भविष्यवाणी कर सकते हैं और हर दिन 10 लाख रुपये का कपन जीत सकते हैं। इस कपन को कंपनी के प्लेटफॉर्म पर भनाया जा सकता है। इस पर लोगों की जबरदस्त बेंगलूरु और दिल्ली के बीच मैच के दौरान इस प्लैटफॉर्म पर 2.6 लाख उपभोक्ताओं ने भाग लिया और 32,000 ने कुपन जीते। उधर, स्विगी ने भी अपने 'मैच डें मानिया' कार्यक्रम के साथ जोमैटो के ऑफर का मकाबला किया है।

ऐसा लगता है कि मार्केटिंग रणनीति बिल्कुल सटीक बैठी है। सेंसर टावर के आंकड़ों के अनुसार, जोमैटो के औसत दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या अप्रैल में क्रमिक आधार पर 8 फीसदी बढ गई जबकि इस दौरान स्विगी के सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या में 5 फीसदी की वृद्धि हुई। मार्च में मासिक आधार पर जोमैटो के सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या में 4.9 फीसदी बढ़कर 61 लाख हो गई जबकि स्विगी के सक्रिय ग्राहकों की संख्या में 4.6 फीसदी बढ़कर 44 लाख हो गई।

इस दौरान दोनों कंपनियों के सक्रिय उपयोगकर्ताओं की मासिक संख्या में 5 फीसदी की वृद्धि हुई। हालांकि मार्च में मासिक आधार पर इसमें महज 2 से 3 फीसदी की वृद्धि हुई। उदाहण के लिए, अप्रैल में जोमैटो के मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या 5.5 करोड़ से अ धिक हो चुकी है जबकि स्विगी के मामले में यह आंकड़ा करीब 4 करोड़ है। इसी प्रकार के मासिक सक्रिय डोमिनोज उपयोगकर्ताओं की संख्या में करीब 1.3 करोड़ की वृद्धि हुई।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मेघवाल तथा एक अन्य भाजपा विधायक शोभरानी कशवाह के समर्थन के कारण उनकी सरकार बच सकी। उन्होंने कहा, 'जो संकट आया हमारे ऊपर...



Extract of Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2023

(₹ in Crores)

| | | | Quarter Ended | Year Ended | | |
|------------|---|--|--------------------------|--|------------------------|------------------------|
| SI. No. | Particulars | 31/Mar/23 (Audited) (refer Note 3) | 31/Dec/22 (Unaudited) | 31/Mar/22 (Audited) (refer note 3) | 31/Mar/23 (Audited) | 31/Mar/22 (Audited) |
| 1. | Total income from operations (net) | 762.55 | 642.22 | 539.48 | 2,889.50 | 2,173.62 |
| 2. | Net profit / (loss) for the period before tax and exceptional items | 81.53 | 67.11 | 47.19 | 222.79 | 201.58 |
| 3. | Net profit / (loss) for the period before tax and after exceptional items | 81.53 | 67.11 | 47.19 | 222.79 | 201.58 |
| 4. | Net profit / (loss) for the period after tax | 60.69 | 46.44 | 29.71 | 157.99 | 144.03 |
| 5. | Total comprehensive income for the period | 60.86 | 46.76 | 29.31 | 157.73 | 146.06 |
| 6. | Paid-up equity share capital | 66.38 | 66.38 | 66.38 | 66.38 | 66.38 |
| 7. | Other equity (as at year end) | - | - | - | 976.18 | 818.60 |
| 8. | Earnings per equity share (EPS) (of ₹ 10/- each) (not annualised) : | | | | | |
| | a) Basic (₹ per share) | 9.10 | 6.99 | 4.48 | 23.72 | 21.70 |
| | b) Diluted (₹ per share) | 9.10 | 6.99 | 4.48 | 23.72 | 21.70 |

- These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (referred to as "Ind AS") 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act. 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The above Consolidated financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Parent Company in their respective meetings held on May 07, 2023. The joint statutory auditors have carried out an
- The Parent Company successfully completed expansion of its distillery capacity by 130 KL per day on "C" heavy molasses at its unit located at Dhampur, Distt. Bijnor, Uttar Pradesh. The new capacity has been commissioned on February 05, 2023. With this expansion, the distillery capacity of the Company stands at 350 KLPD
- The figures for the guarter ended March 31, 2023 and March 31, 2022 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year to date figures up to the third quarter of the respective financial year, which were only reviewed by joint statutory auditors
- The Board of Directors of the Parent Company at its meeting held on April 03, 2023 declared interim dividend of 60% i.e. ₹ 6 per equity shares of ₹ 10 each on 6.63,87,590 Equity Shares of the Company for the Financial Year 2022-23 (Aggregate of Interim Dividend of 50% i.e. ₹ 5.00 per Equity Share of ₹ 10 each and Special Dividend of 10% i.e. ₹ 1.00 Per Equity Share of ₹ 10 each on successful commissioning of New Distillery Project of the Company) and is proposed to be confirmed as final by the shareholders in the ensuing Annual General Meeting of the Company
- Sugar being a seasonal industry, the performance of the quarter may not be representative of the annual performance of the Company.
- The above is an extract of the detailed format of Audited Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on stock exchange websites i.e https://www.nseindia.com, https://www.bseindia.com and on Company's website https://www.dhampursugar.com

The key Standalone information is as under

(₹ in Crores)

| | | Quarter Ended | Year Ended | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Particulars | 31/Mar/23 (Audited) (refer Note 3) | 31/Dec/22 (Unaudited) | 31/Mar/22 (Audited) (refer note 3) | 31/Mar/23 (Audited) | 31/Mar/22 (Audited) |
| Total revenue | 756.88 | 643.74 | 574.66 | 2,840.75 | 2,208.71 |
| Profit before tax | 78.73 | 66.69 | 50.44 | 215.10 | 204.50 |
| Profit after tax | 57.89 | 46.02 | 32.96 | 150.30 | 146.95 |
| Other comprehensive income (OCI) | 0.17 | 0.32 | (0.40) | (0.26) | 2.03 |
| Total comprehensive income | 58.06 | 46.34 | 32.56 | 150.04 | 148.98 |

7 Figures for the previous corresponding periods have been regrouped, wherever considered necessary

For and on behalf of the board Sd/-

Ashok Kumar Goel

Chairman

ฑไishtiไ Mishti

DHAMPUR SUGAR MILLS LIMITED

Regd. Office: Distt. Bijnor, Dhampur (U.P.) - 246761 CIN - L15249UP1933PLC000511.

> Phone No - 011-41259400 Email: investordesk@dhampursugar.com

Website: www.dhampursugar.com







शाह का पैसा लौटा दें विधायक : गहलोत

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहलोत ने विधायकों से उस राशि में से खर्च

रविवार को दावा किया कि 2020 में उनकी किए गए हिस्से को पार्टी से दिलाने की

सरकार के खिलाफ बगावत में शामिल पेशकश की है ताकि विधायक बिना किसी

कांग्रेस विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित । दबाव के काम कर सके। धौलपर में एक



शाह से लिए गए पैसे वापस नहीं किए हैं। कार्यक्रम में गहलोत ने यह भी कहा कि पूर्व शेखावत इन सबने षड्यंत्र किया। भाषा





यह अमित शाह, धर्मेन्द्र प्रधान,













31 मार्च 2023 को समाप्त हुई तिमाही / वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (रूटैंडअलोन और समेकित)

Place: New Delhi

Dated: May 07, 2023

स्टैंडअलोन समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष समाप्त वर्ष विवरण सं. 31.03.2023 31.03.2022 31.03.2023 31.03.2023 31.03.2022 31.03.2023 31.03.2022 31.03.2022 1 परिचालनों से कुल आय (निवल) 11,44,346 54,74,761 45.95.456 11,55,331 55,14,286 46,29,146 16,54,893 16,71,594 2 अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर पूर्व, अपवादात्मक और/ 2,20,152 1,00,875 5,66,010 2,13,317 92,505 6,22,931 5,56,675 6,05,458 या असाधारण मदों से पूर्व) 3 अवधि हेतु कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/ 2,13,317 92,505 6,22,931 5,56,675 2,20,152 1,00,875 6,05,458 5,66,010 या असाधारण मदों के पश्चात 4 अवधि हेतु कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक 3,40,470 4,02,294 1,35,044 60,627 1,41,153 68,814 3,83,796 3.49.257 और/या असाधारण मदों के पश्चात) अवधि हेतु कुल समेकित आय [जिसमें अविध हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य समेकित आय (कर पश्चात) शामिल है] नोट 3 का संदर्भ लें। नोट 3 का संदर्भ लें। 4.10.431 चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 4,10,431 4,10,431 4,10,431 4,10,431 4,10,431 4,10,431 4,10,431 7 आरक्षित निधियां (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि छोड़कर) 47,97,028 44,10,032 49,37,368 45,43,582 8 प्रतिभूति प्रीमियम खाता 16,25,453 16,25,453 16,25,453 16,25,453 17,38,470 16,82,605 17,38,470 16,82,605 36,93,309 41,12,713 41.12.713 36.93.309 42,08,040 38,18,159 42,08,040 38,18,159 10 चुकता कर्ज पूंजी / बकाया कर्ज* 14.08% 28.59% 14.08% 28.59% 11 बकाया प्रतिदेय अधिमानी शेयर 12 कर्ज इक्रिटी अनुपात 0.24 0.23 0.24 0.23 13 प्रति शेयर आय (प्रत्येक ₹ 10/- के) (जारी एवं बंद किए गए परिचालनों के लिए) में 1.48 3.29 9.80 8.84 3.44 1.68 9.35 9.07 2. तनुकृत (₹ में) 3.29 1.48 9.80 8.84 3.44 1.68 9.35 9.07 14 पूंजी मोचन आरक्षित निधि 50 50 50 15 डिब्रेंचर मोचन आरक्षित निधि लागू नहीं 16 कर्ज चुकौती कवरेज अनुपात लागू नहीं 17 ब्याज चुकौती कवरेज अनुपात लागू नहीं *कर्ज़ एक वर्ष से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाली उधार राशियां दर्शाता है। बकाया कर्ज़ बैंक की कुल उधार राशियां दर्शाते हैं।

अपनी आकांक्षाओं को साकार कर रहा है देश। उस विकास में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है बैंक ऑफ़ इंडिया।

- 1. उपर्युक्त सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 33 तथा विनियम 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों मे दायर तिमाही/वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत का प्रारूप सारांश है। तिमाही/वर्ष के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों (बी.एस.ई: https://www.bseindia.com) एवं (एन.एस.ई.: https://www.nseindia.com) और बैंक की वेबसाइट (https://www.bankofindia.co.in) पर उपलब्ध हैं।
- 2. लिस्टिंग विनियमों के विनियम 52(4) के अनुसार अन्य चीज के लिए स्टॉक एक्सचेंजस (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) विस्तृत जानकारी दी गई है, और देखने के लिए यूआरएल (NSE:https://www.nseindia.com और BSE:https://www.bseindia.com) का इस्तेमाल किया जा सकता है।

3. कूल समेकित आय और अन्य समेकित आय से संबंधित जानकारी प्रस्तृत नहीं की गई है क्योंकि Ind AS अभी बैंकों के लिए लागू नहीं किया गया हैं।

दिनांक : 06.05.2023

(सुब्रत कुमार)

(एम. कार्तिकेयन) कार्यपालक निदेशक

(स्वरूप दासगुप्ता) कार्यपालक निदेशक

(पी. आर. राजगोपाल) कार्यपालक निदेशक

(रजनीश कर्नाटक) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ



रिश्तों की जमापूँजी

प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, सी–5, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051. | टोल फ्री नं.: 1800 220 229 / 1800 103 1906 | विजिट करें: www.bankofindia.co.in | 🚱 🔊 🕟 🗖 🗐 🕒 🗷 हमें फॉलो करें.